





वशुधैव कुटुम्बकम्
ONE FAMILY

केन्द्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल मनौरी, प्रयागराज

संस्करण 2023-2024

ई-विद्यालय पत्रिका

किसलय

Kendriya Vidyalaya

AFS MANAURI, PRAYAGRAJ

Email: kvmald@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय

वायु सेना स्थल मनौरी , प्रयागराज

‘किसलय’

संस्करण 2022 – 2023

मुख्य संरक्षक

डॉ. अजय कुमार मिश्र
(उपायुक्त के.वि.सं वाराणसी संभाग)

सह-मुख्य संरक्षक

श्री दिनेश चन्द मीणा
(सहायक आयुक्त के.वि.सं वाराणसी संभाग)

संरक्षक

डॉ. शालिनी दीक्षित
(प्राचार्य)

मुख्य संपादक

श्री संजय
(स्नातकोत्तर शिक्षक - अंग्रेजी)

संपादक मंडल

⇒ श्रीमती गरिमा सिंह

पीजीटी हिंदी

⇒ श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा

पीजीटी हिंदी

पीयूष वर्मा

कक्षा 12 अ

अभ्यम सिंह

कक्षा 12 अ

अवंतिका

कक्षा 12 ब



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय, ब०रे०का०, कंचनपुर, वाराणसी - 221004
Regional Office, B.L.W. Kanchanpur, Varanasi - 221004
शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार
Ministry of Education, Deptt. Of School Education & Literacy, Govt. of India
e-mail:- kvsrovn@gmail.com Website- [www.https://rovaranasi.kvs.gov.in](https://rovaranasi.kvs.gov.in) Ph:- 0542-2300825

F.430331/KVS, RO (VNS)/20223-24

Date: 11.08.2023

Message for e-Vidyalaya Patrika

I feel delighted to know that Kendriya Vidyalaya AFS Manauri, Prayagraj is going to publish its current issue of e-Vidyalaya Patrika for the Academic Year 2022-23.

Vidyalaya Patrika helps the young, talented and creative students of Vidyalaya to come forward with their views. This type of effort is very much essential for achieving the aims of the Vidyalaya.

I wish all the staff members and students who have taken great pain in bringing out this e-Vidyalaya Patrika, a scintillating success in this pious endeavor.

With best wishes !

(Dr. Ajay Kumar Mishra)
Deputy Commissioner

To
Dr. Shalini Dikshit
Principal
K V AFS Manauri, Prayagraj



MESSAGE

CHAIRMAN VIDYALAYA MANAGEMENT COMMITTEE

1. It gives me immense pleasure to know that KV Manauri is issuing its 2023 -24 edition of magazine, the 'e-Patrika'. The literary and artistic creativity has been showcased by the students and staff of the Vidyalyaya, in this endeavour.
2. The School magazine provides a platform for inspiring young minds to display their ingenuity, vision and literary talent, which in turn reflects the quality of education and co-curricular activities being imparted by K V Manauri. It also triggers the spirit of healthy competitions and a stage for the 'young-minds' to project his or her talent, which otherwise would have gone un-noticed to the environment.
3. On this august occasion, I convey my best wishes to the Principal, Staff, Editorial Committee and students for their yeoman initiative. I sincerely hope that this magazine will act as catalyst not only in enhancing their literary and creative skills but also would help in holistic growth of the students and the Vidyalyaya at large.

"Jai Hind"

(Angshuk Pal)
Air Cmde
Air Officer Commanding
Chairman VMC

Date : 15 Aug 2023

FROM THE PRINCIPAL'S DESK



I feel immense pleasure to present the second edition of Vidyalaya e-Patrika for the session 2022-23 at the dawn of new academic session portraying a year filled with enlightening activities and experiences aimed at promising the overall development of the child.

Vidyalaya e-Patrika is the mirror of reflection of our budding's talent in this global competitive world where one needs to master in the art of communication: verbal & written. Students groom their personality and communicative skill through different co curricular activities like debates, recitations, group discussions, seminars etc.

Vidyalaya e-Patrika offers opportunities & platform for the children to express and prove their creative & innovative thinking and talent.

I appreciate and congratulate the Editorial Board for their constant efforts and dedication in bringing out the Vidyalaya e-Patrika. I am sure the reader will find this News Letter educative, informative & interesting.

(Dr. Shalini Dikshit)

Principal

K V AFS Manauri, Prayagraj



FROM THE EDITOR'S PEN

Dear students,

The demand of the new century is regeneration of man. That is possible only by building an integrated human being. The inner light can sustain us through storm and rough weather. The inner light will sustain you forever. The aim of the coming new age is the development of an integrated man who can be a true man and does not have feeling of malice.

There is always danger for the danger for the outer light to be put out in the storms and winds but we can always be assured of our inner light which no storm or rough weather can put out. We generally want to achieve the maximum result in the shortest time and with the least efforts we will have to give up this mentality.

We should bear in our mind that we are not born only to make merry and enjoy life by being a parasite on the others. The German philosopher Goethe says that we are born in this world not to play or dream only but we have to work hard and fulfill many responsibilities. We have not to turn our face away from the struggles of life and not to escape from life. We have to face the adversities of life.

Vidyalaya plays an important and special role in transforming knowledge into wisdom of students because it organises various activities and publication of Vidyalaya e- Patrika is one of them a platform to harness and sharpen his hidden talents and literary activities.

I, from the editorial desk, pay my sincere thanks to the students who contributed articles for this patrika and also to them whose writings we could not accommodate. The Editorial Board hopes that the student will continue their creativity forever with the same enthusiasm and inspiration.

With a hope I conclude this edition of Vidyalaya e- Patrika (2022-2023) that it will make their dreams higher enough and will enable to bring their knowledge into wisdom. I extend my special obligation to my most learned and hon'able Principal Madam, Vice Principal Sir and my colleagues who provide me a chance to continue the work. Their valuable guidance and inspiration helped me a lot to bring out this edition of the Vidyalaya e- Patrika in the present form.

Yours affectionately
SANJAY
PGT (ENGLISH)

CBSE RESULTS 2023: AT A GLANCE

CLASS	APPEARED	PASSED/ QUALIFIED	PASS %
X	108	108	100
XII SCIENCE	82	80	97.56
XII COMMERCE	55	54	98.18
XII HUMANITIES	51	51	100
OVERALL XII	188	185	98.40



**KENDRIYA VIDYALAYA AFS MANAURI
PRAYAGRAJ**

VIDYALAYA TOPPERS

2022-23



RIDDHIMAN PRATAP SINGH
CLASS X 96.4%



HARSH BHUSHAN PATHAK
CLASS XII 95.4%



KALPANA KUMARI
CLASS XII- HUMANITIES
91.4%



DHIRENDRA KUMAR KUSHWAHA
CLASS XII-COMMERCE 93.4%



PRITHAAYASHI
CLASS XII- COMMERCE 93.4%

KALA- UTSAV PARV- 2023



KV AFS MANAURI, PRAYAGRAJ

KALA UTSAV



Tribes of Arunachal Pradesh



There are around 26 tribes in Arunachal Pradesh with more than 100 sub-tribes. Out of which, the principal tribes are Ache, Mura, Nyakha, Tagin, Sela, Yulu, Khumbi and Mura.

The origin of the tribes that now reside in Arunachal Pradesh are unknown. However, it is known that they have been passed down through oral traditions from generation to generation. It is usually assumed that the tribes that today inhabit the territory were originated in Burma. Modern-day Myanmarese tribes, where the Mongoloid tribal groups with comparable customs exist.

26 TRIBE'S NAME :-

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| 1. Ache | 11. Dula | 21. Nisi |
| 2. Aboh | 12. Dumi | 22. Nocte |
| 3. Achi | 13. Galong | 23. Tagin |
| 4. Ache Gulong | 14. Idu | 24. Tonga |
| 5. Ache Murgong | 15. Khamti | 25. Tawang Mura |
| 6. Ache Padam | 16. Miji | 26. Wancho |
| 7. Aka | 17. Mishang | |
| 8. Ache Naga Tribes | 18. Mishmi | |
| 9. Apatani | 19. Monpa | |
| 10. Boro | 20. Mung | |



FESTIVAL OF APATANI

This festival is an important festival for Apatani tribe. This is the biggest festival of Apatani and it is marked by Sacrificial offering and prayers. The festival is celebrated in the month of July and in the village. The purpose of the festival is to thank the God for the good harvest. In the month of July, there is a festival in Apatani. The festival is celebrated in the month of July. The festival is celebrated in the month of July. The festival is celebrated in the month of July. The festival is celebrated in the month of July.

GALO
TRIBE



BUGUN
TRIBE



KV AFS MANAURI PRAYAGRAJ

PRIMARY SECTION ACTIVITIES



Va Gatha Project
(वीर गाथा प्रोजेक्ट)

नाम - सौम्या यादव

कक्षा - 12-A

भद्र - अशोक

चढ़ गया थी पताड़ अभी,
आँखों में खून खौल रहा था,
चौटी में बैठा दुश्मन,
अपने झंडों को सौच रहा था,
वह पर्वत भी अमान नहीं था,
कौड़ खाली मैदान नहीं था,
चढ़ गया जो चौटी उसकी
वह आम इन्सान नहीं था,
नाम दिया था शेरशाह उसे
वह युद्ध भी अमान नहीं था,
जो लड़ सकें वह लड़ गये,
जीने के शव लौटे वह पूजे गये,
कारागार था युद्ध वह,
भारत माता का पुत्र, विक्रम बहा, वह शेरशाह था,
लहरा दिया तिरंगा, दुश्मन ना टिक सका उनके सामने
शजनीली वह ना समझ सके
जितने का कौंग सौच सका था,

(विक्रम बहा
शौर्य वीर चक्र से सम्मानित)

वीर गाथा प्रोजेक्ट

नाम - शिवानी शर्मा

कक्षा - 12 - 'अ'

सदन - अशोक

चंडीगढ़ का था वो वीर, विक्रम बना नाम उसका।
कारगिल में लड़ा था वो, सौर्यनाथ सम्मान मिला ॥
शेरशाह उपनाथ मिला, फिर सिनेमा जगान में
भी सम्मान हुआ ॥
सोचा था उसने की कारगिल के बाद करेगा जीवन
में चढ़ाई,
लेकिन उसकी हो गई जगा से जुड़ाई ॥
उनके घर की दीवारों भी रोई होगी,
पता नहीं उनकी माँ कैसे सोई होगी।
हे वीर नमन है तुम्हें,
अपना जीवन है बारा वतन के तुम्हें।
हे वीर नमन है तुम्हें ॥

स्वरचित - शिवानी शर्मा



CCA ACTIVITY



ना नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है
ना धरा बचाने के खातिर, विष कोई शंकर पीता है ॥

ना श्रीकृष्ण सा धर्म - अर्धम का किसी में ज्ञान बचा है।
ना हरिचंद्र सा सत्य, किसी के अंदर रचा बसा है ॥

न गौतम बुद्ध सा दैर्य बचा, न नानक जी सा परम त्याग।
बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल आग ॥

फिर बोल की उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकि तुम में।
की किस धुन में रम कर के तुम फूले नहीं समीत हो,
तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो ॥

तुम भीष्म पितामह की भांति ही, अपनी जिद पर ही अड़े रहें।

तुम शकुनि के षण्यंत्रों से घृणित रहें, तुम दंग रहें, तुम कर्ण
के जैसे भी होकर, दुर्योधन दल के संग रहें ॥

एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है।
कुछ धर्मियों के अंदर फिर थोड़ा धर्म जगाता है ॥

फिर धर्म की चीह्नम में नफरत की चिंगारी से आग लगाकर
धरस की धुँआ फुँक-फुँककर मतवाले होते जाते हो तुम स्वयं
को श्रेष्ठ बताते हो ॥

नंदनी शर्मा

12 ई।

उम्मीद इंसानो की...

उम्मीद की थाली लिए हर इंसान खड़ा है,
बस कुछ पैसों की खातिर
अपने वजूद का भी करता सौदा
रिश्तों से तड़पता
सिर्फ अपनेपन को ही खोजता,
उम्मीद की थाली में कोई प्यार परोस दे
जाके वह यह सोचता ।
होके बेचैन अपनी तन्हाईयो से
अपने मन की गहेराईयो में सोता
तब तक उम्मीद की थाली पकडे
बस इधर उधर ही भटकता ।
इन्तजार उसे है हर वक्त किसी का,
ख्याल उसे सिर्फ अपने कल का,
जो कर दे उम्मीद पूरी
ऐसी है चाहत उसकी अधूरी ॥

शिवांग त्रिपाठी

कक्षा 12 अ

विद्यालय में पुस्तकालय का महत्त्व

विद्यालय की पुस्तकालय एक बहुमूल्य संसाधन है जो छात्रों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न पुस्तकें, संदर्भ सामग्री, और डिजिटल संसाधनों का पहुंच प्रदान करती है, जिससे पढ़ने की भावना को बढ़ावा मिलता है और शिक्षा को समर्थित किया जाता है। इसे अध्ययन, शोध, और आत्मसुधार के लिए एक शांत और उपयुक्त स्थान के रूप में - प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, विद्यालय की पुस्तकालय अक्सर छात्रों के साहित्यिक कौशल को सुधारने और ज्ञान के प्रति उत्साह भड़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करती है।

विद्यालय की पुस्तकालय का एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि वह छात्रों को विभिन्न विषयों पर जानकारी और समझ प्रदान करती है, जो उनके शिक्षा में वृद्धि करता है और उन्हें एक समर्थ और सुविधाजनक नागरिक बनाता है। छात्रों को यहां विभिन्न विषयों की पुस्तकें, साहित्य, खेलखिलाड़ी-, विज्ञान, और इतिहास आदि के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे उनके विचार और ज्ञान का स्तर उच्च होता है।

विद्यालय की पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और छात्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन है। यह छात्रों को समृद्धि, समझदारी, और अध्ययन के प्रति उत्साह की प्रेरणा प्रदान करती है, जो उन्हें उनके भविष्य के लिए सफलता की दिशा में मदद करता है।

नाम प्रियांशु यादव

कक्षा 11 - A

आधुनिक युग की नारी

सजग, सचेत, सबल, समर्थ

आधुनिक युग की नारी है

मत मानो अब अबला उसको , सक्षम है बलधारी है

बीत गई वो कल की बेला

जीती थी वो घुट घुट कर

कुछ न कहती , सब कुछ सहती

पीती आंसू छुप छुप कर

आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा उस से हारी है

चारदीवारी का हर बन्धन

तोड़ के बाहर आई है

घर, समाज और देश में उसने

अपनी जगह बनाई है

ऊंचे ऊंचे पद पर बैठी, सम्मान की वो अधिकारी है

मत समझो निर्बल बेबस,

लाचार आज की नारी है ,

नर की प्रबल प्रेरणा का

आधार आज की नारी है ,

स्नेह, प्रेम व ममता का

भण्डार आज की नारी है ,

हर जंग जीते शान से यह, अभियान अभी भी जारी है

तू युद्ध कर

माना हालात प्रतिकूल हैं,
रास्तों पर बिछे शूल हैं
रिश्तों पे जम गई धूल है
पर तू खुद अपना अवरोध न बन
तू उठ खुद अपनी राह बना

माना सूरज अँधेरे में खो गया है
पर रात अभी हुई नहीं,
यह तो प्रभात की बेला है
तेरे संग है उम्मीदें,
किसने कहा तू अकेला है
तू खुद अपना विहान बन,
तू खुद अपना विधान बन

सत्य की जीत ही तेरा लक्ष्य हो
अपने मन का धीरज,
तू कभी न खो
रण छोड़ने वाले होते हैं कायर
तू तो परमवीर है,
तू युद्ध कर
तू युद्ध कर

इस युद्ध भूमि पर,
तू अपनी विजयगाथा लिख
जीतकर के ये जंग,
तू बन जा वीर अमिट
तू खुद सर्व समर्थ है,
वीरता से जीने का ही कुछ अर्थ है
तू युद्ध कर
बस युद्ध कर.

समीर पाण्डेय
कक्षा -:12-अ

आजादी का अमृत महोत्सव

आओ हम सब मिलकर
आजादी का अमृत महोत्सव मनाएँ ।
जन गण मन सब मिलकर
राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाएँ ॥

भारत भूमि की स्वर्ण पताकाएँ
हम सब मिलकर लहराएँ ।
गीता कुरान बाइबल की
गौरव गाथा सबको सुनाएँ ॥

वीर भोग्य वसुंधरा की
महिमा को सब मिलकर गाएँ ।
शहीदों की पुण्य स्मृति में
आओ सब मिलकर दीप जलाएँ ॥

आजाद सुभाष भगत सिंह बाबा साहब के
पद चिन्हों पर चलते जाएँ ।
नेहरू गांधी सावरकर की
भावभूमि सब तक पहुँचाएँ।

भारत के सब जन गण मिलकर
देशप्रेम की अलख जगाएँ ।
आओ हम सब मिलकर
आजादी का अमृत महोत्सव मनाएँ ॥

शिफा

10 'अ'

मेरा देश

प्यारा प्यारा मेरा देश,
प्यारा प्यारा मेरा देश,
सजा सवारा मेरा देश।
दुनिया जिस पर गर्व करे
नयन क्षितरा मेरा देश।
चाँदी सोना मेरा देश,
सफल सुलोना मेरा देश
सूरज जैसा आलोकित
सुख का कोना मेरा देश।
फूलों वाला मेरा देश,
झूलों वाला मेरा देश,
गंगा यमुना की माला का
फूलों वाला मेरा देश
आगे जाये मेरा देश
नित मुखकार्य मेरा देश
इतिहास में बढ़ चढ़ कर
नाम लिखाये मेरा देश।

Mahi Singh

Class XIA

॥ हम लड़के हैं जनाब ॥

जहां इमोशन से पहले परिवार आता है
घर की जिम्मेदारियों का ख्याल आता है॥

आंखों में टूटे सपनों का याद आता है
किसी का प्यार किसी कि मार याद आता है
हम लड़के हैं जनाब हमको यह सब कुछ आता है॥

हमें प्यार दिखाना भी आता है
और किसी से छुपाना भी आता है
हम लड़के हैं जनाब हमको यह सब कुछ आता है॥

परिस्थितियों के साथ भिड़ना भी आता है
तो मुसीबतों में हंसना भी आता है
हम लड़के हैं जनाब हमको यह सब कुछ आता है॥

किसी के साथ दिल जोड़ना भी आता है
तो किसी का दिल तोड़ना भी आता है
किसी को रुलाना भी आता है
तो किसी को हंसना भी आता है
हम लड़के हैं जनाब हमको यह सब कुछ आता है॥

पिता की पगड़ी को ऊपर करना अभी आता है
तो मां के आंसू को समेटना भी आता है
बहन कि लाज को बचना भी आता है
तो भाई कि मुसीबतों में कड़ा होना भी आता है
हम लड़के हैं जनाब हमको यह सब कुछ आता है॥

नाम :- शिवम कुमार प्रजापति
कक्षा एवं वर्ग :- 11वीं "ब"
अनुक्रमांक :- ३१

देश के जवान

आओ करे उनको सलाम
जो हुए हमारी हिफाज़त में कुरबान
भारत है हम सब की जान
आओ बढ़ाए इस राष्ट्र का जान

देश की रक्षा में जब शौर्य
फिरवाने की बारी आई थी।
तब जवानों ने भारत माँ के लिए
अपनी जान गवाई थी।

दुर्गम रास्तों की चरि आगे,
कदम बढ़ाया था।
दूर चोटी पर भारत माँ,
का तिरंगा लहराया था।

दुश्मन को लगता था
उनसे भय।
जब भी मुँह से निकले,
भारत माता की जय!!

नाम - हम्य अकबर
कक्षा - बारहवीं ई

संजित

classmate

Date

Page

~ आन्या गुप्ता

कुद करेना है तो डर कर चल,
धोडा दुनिया से हर कर चल

लेक पर तो सभी चल लेते हैं
कभी इतिहास को पलट कर चलना

बिना काम के मुकाम कैसा ?

बिना मेहनत के, काम कैसा ?

जब तक न हासिल हो मांजिल
तो राह, में आराम कैसा ?

अर्जुन सा निशाना रख ।

मन में न कोई बहाना रख

लक्ष्य सामने है, बस उसी पर ठिकाना रख

सौच मत, साकार कर

अपने कर्मों से प्यार कर ।

मिलेगा तेरी मेहनत का फल

किसी और का न इन्तजार कर

जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं,
जो करते रहे इन्तजार,

उनकी जिन्दगी में आज भी इमिले हैं ॥

उनकी जिन्दगी में आज भी इमिले हैं ॥

आदर्श विद्यार्थी के गुण

- अनुशासन -: किसी भी आदर्श विद्यार्थी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण होता है – एक आदर्श विद्यार्थी अपने विद्यालय और घर के अनुशासन का पालन करता है और .अनुशासन इसी विद्यार्थी .इसे हमेशा बनाये रखता हैजीवन से तो संपूर्ण जीवन में अनुशासन की नींव तैयार होती है.
- आज्ञाकारी -: एक आदर्श विद्यार्थी वहीं होता है, जो अपने गुरुजनों, माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करता होपरन्तु इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वह आँख बंद करके सभी . बातें मान ले, उसे सही गलत समझकर फिर उस आज्ञा का पालन करना चाहिए.
- सहायता करना -: एक आदर्श विद्यार्थी में सहायता करने का गुण होना चाहिएइस गुण को . इसके लिए उस .अपनाने के लिए किसी खास मौके या विशेष जगह की आवश्यकता नहीं है वह चाहे तो .विद्यार्थी में मात्र सहायता करने की भावना होना चाहिए अपने सहपाठियों की कोई मदद कर सकता है या अपनी पुरानी किताबें किसी गरीब बच्चे को देकर उसकी पढाई में भी मदद कर सकता है.
- ज्ञानार्जन को तत्पर:- एक आदर्श विद्यार्थी वह होता है, जो अपने शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहेअ .च्छी पुस्तकें पढना, समाचार पत्र पढना, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना, अपने विषयों से सम्बन्धी उसकी जो भी जिज्ञासाएं हो, उन्हें जानने के लिए प्रयास करना, आदि गुण आदर्श विद्यार्थी में होते हैं.
- खेलकूद में भाग लेना -: आदर्श विद्यार्थी होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा बस पूरे समय पढता ही रहे, उसे विद्यालय में आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए . विभिन्न खेलों में से जिस भी खेल में रुचि हो, विद्यार्थी को उसमें भाग लेकर अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए.

- **परिश्रमी होना** :- एक आदर्श विद्यार्थी में परिश्रम करने का गुण होना चाहिए अच्छे नंबरों से . अगर अपने विद्यार्थी जीवन में .पास होने के लिए उन्हें पढाई में मेहनत करना चाहिए इन्होंने परिश्रम का महत्व जान लिया, तो फिर वे जीवन में कभी भी मेहनत से नहीं कतराएँगे और हमेशा परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे.
- **समय का सदुपयोग** :- कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, अतः आदर्श विद्यार्थी में समय के महत्व और इसकी पाबंदी का ध्यान रखना चाहिए समय पर विद्यालय पहुँचना ., समय पर अपनी पढाई करना, समय पर अपने सभी काम निपटाना, आदि की आदत इसी समय में पड़ती हैं तो जीवन भर कायम रहती हैं और साथ ही जीवन भर इसके लाभ भी प्राप्त होते हैं.
- **धैर्य** :- जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं, जब हम अपनी संपूर्ण मेहनत लगा देते हैं, परन्तु हमें उसका फल नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास ही नहीं करते यदि . हमें अपने विद्यार्थी जीवन में ही धैर्य का पाठ पढा दिया जाये और हम इसे अपने जीवन में पूर्णतया धारण कर लें तो आज नहीं तो कल हमें सफलता अवश्य मिलेगी.

प्रज्ञेश शर्मा-

XI 'ब'

प्रेमचंद के फटे जूते

एक तस्वीर तुम्हारी मेरे सामने है खड़ी,
जिसमें खींचा रहे हो तुम फोटो शानसे बड़ी।

देख रहा था पोशाक और शकल तुम्हारी,
जूते तुम्हारे देखआंखें दंग रह गई हमारी। ,

दाएका जूता ठीक,बाए में दिखा एक छेद ,
किस के कारण आया "ट्रेजडी" यह भेद?

एक जगह आप के हालात है खराब,
मगर किसी पर हंस भी रहे हैं जनाब !

कैसे फोटो तुम हो ऐसेखींचते?
क्या जूते तुमसे मांगे ना जाते?

वैसे कौन सा ठीक है मेरा जूता,
तलवा है घिसापैर जमीन को छूता।,

अंगुली तुम्हारी दिखती बाहर,मगर पैर है मस्त ,
हमारी अंगुली नहीं दिखती,मगर पैर है दर्द सेग्रस्त।

तुम नहीं रहे पर्दे का महत्त्व जान,
मगर हम हो रहे पर्दे पर कुर्बान।

किस टीले पर तुमने अपना जूता आजमाया,
जिसके बाद जूता अपना फटा पाया?

लेकिन हर नदी नहीं पत्थर को तोड़ती,
कुछ अपना रास्ता भी तो मोड़ती।

लेकिन यह क्या, जिसे समझते हो घृणित ?
पैर की अंगुली से करते हो उसे इंगित?

कैसे हैं तुमने अपने जूते को फड़वाया?
अभी तक नहीं है तुम ने मुझे समझाया।

समझता हूं मैं इस जूते की बात को!
और समझता हूं मैं तुम्हारी अंगुली की आहट को!

अमीष सिंह रावत

दसवी 'ब'

मोटे अनाज का महत्व

मोटे अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं इनके सेवन से कई फायदे मिलते हैं। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कगनी, चीना, कौंदो, कुटकी और कुट्टू शामिल हैं। बाजरा लोहे से भरपूर होता है और खून कि कमी को दूर करता है।

ज्वार शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें कैल्शियम और फोलिक अम्ल भरपूर मात्रा में होता है। रागी एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है।

मोटे अनाजों के सेवन से हमारे शरीर में होने वाले फायदे भी अनिख हैं जैसे इनके सेवन से पाचन क्रिया मजबूत होती है। वजन नियंत्रित करने में भी यह सहायक है। और यह हार्ट और डायबिटीज रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

इसमें यह अमीनो अम्ल से बने होते हैं इसलिए यह गेहूं और गवत के प्रोटीन से भी बेहतर है। इसलिए इनका सेवन प्रतिदिन करें और स्वस्थ रहें।

Princy Kripathi

XII 'A'



नारा लेखन विषय तंबाकू - को ना

1. नशा नाश कर देगा , फिरोगे दाने दाने को -|

कटोरा होगा हाथ में, कोई न देगा खाने को ||

2. तंबाकू खाकर न पाल घर में दरिंदगी |

संभल जा मानव कीमती है जिंदगी ||

3. तंबाकू खाने वालों का बड़ा बुरा हाल होता है |

शरीर के हर अंग में बीमारियों का जाल होता है ||

4. रोज रोज मरने से अच्छा है बुरी आदतों को छोड़ - दो |

खुश रहे आपका परिवार तंबाकू से नाता तोड़ दो ||

नाम शिवांगी भद्र -

कक्षा -12 अ



हर शहर का अपना चरित्र होता है

दिनांक २३बजे हमसफर से नई दिल्ली ६को २०२२/१०/ स्टेशन पर उतरा। सुबह चाय की तलब बेचैन कर रही थी। अभी आगे की यात्रा के लिए ट्रेन आने में पर्याप्त समय था ऐसे में प्लेटफार्म की चाय पीना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। हम लोग अपना बैग लेकर दाहिनी ओर से बाहर निकल गए। दाहिनी ओर ही पहले ठेले पर मैंने फीकी चाय बनाने का अनुरोध किया। ऐसा लगता था कि ठेले वाले ने अभीअभी यह धंधा शुरू किया था, सभी सामान नया ही था। उसने कहा चाय अभीअभी बनाया हूँ-हल्की शक्कर है। सुबहसुबह बोहनी के समय उस ठेले से दूसरी दुकान जाना उचित नहीं लगा। हम लोग वहीं स्टूल पर बैठ कर चाय पीने लगे। चाय पीने के अर* चाय पीते समय ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म तवे पर पानी के छीटें डाल दिए हों।मां आंसुओं में बह गए।है क्या दिल्ली में शक्कर सस्ती -मैंने इतना ही कहा *? पता नहीं वो मेरी बात कितनी समझा,कोई जवाब नहीं दिया। मन खराब हो गया था। मैंने सौ रूपए का नोट उसे पकड़ाया। उसने तीस रूपए चिल्लर की मांग की। उसके पास खुल्ले नोट बहुत थे पर वह न देने पर अड़ा हुआ था। पता नहीं वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? मैंने बगल वाले से खुल्ले चाहे तो उसने बड़ी रुखाई से कहा सौ के एक सौ बीस लगेंगे। यू पी आई से पेमेंट हो नहीं रहा था,सर्वर डाउन था। इसी सब में लगभग पौन 15 मिनट बर्बाद हुए, किसी तरह स्केन हुआ और पेमेंट हो गया। दूकानदार ने कई बार फोन को उलटपलटकर तसल्ली ए उसके खाते में पहुंचे या नहीं। संतुष्ट भाव से उसने कहा धन्यवाद। तब तक मनुष्य की कि तीस रूप इमरान भाई अपना धन्यवाद -का मनुष्य के प्रति व्यवहार से मैं अंदर तक आहत हो गया था। मैंने कहा अपने पास रखो,बाद में तुम्हारे काम आएगा। तब तक उसका पड़ोसी दूकानदार अपना काम छोड़कर एक पैर पर कूदता हुआ मेरे पास आया और बोलने लगा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये कितने अच्छे से धन्यवाद बोल रहा है और तुम कड़वाकड़वा बोल रहे हो। मैंने कहा मैं ग्राहक हूँ और ये दूकानदार इसने अपने मन कीचाय पिलाई और मैंने इसे तीस रूपए दिए इसके बीच धन्यवाद कहां से आ गया। मुझे चाय चाहिए थी मिल गई,उसे पैसा चाहिए थे मिल गए, अब मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए। विवाद बढ़े उससे पहले हम लोग बैग घसीटते हुए चल पड़े। पीछे से वे दोनों बड़बड़ाते रहे। शायद वह घर से झगड़ा करके दूकान खोलने आया


रहा होगा उसने जुबान की शक्कर भी चाय में डाल दी थी।

TREE- PLANTATION



मेजर सोमनाथ शर्मा

मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊँ
रेजिमेंट की बटालियन की डेल्टा कंपनी के
कंपनी - कमाण्डर थे। कश्मीर पर कब्जे की
पाकिस्तान की राजिश को नाकाम करने के लिए
देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार को सबसे
पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया था।
यह वही वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने वीरता
के दम पर पाकिस्तानी द्वाइब फोर्सों के 700
जवानों को रोके रखा और उनके मंसूबों
को तैर कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र भारत
में पहला "परमवीर चक्र" प्राप्त हुआ।
उन्होंने तीन नवंबर 1947 को जान देकर



KV AFS MANAURI, PRAYAGRAJ

CCA ACTIVITIES

RAKHI MAKING ACTIVITIES



(CCA)
(वीर गाथा प्रोजेक्ट)

Date _____
Page _____

सैनिक की आवाज़

मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है,
ऐसे जबाज़ सैनिक हमारे भारत की शान है,
अपने मरने का भी ग़म कभी नहीं करते हैं,
सैनिक अपने सीने पर गोली भी झेल लेते हैं,

सीमा पर सैनिक कुछ ऐसे ईश्वर मनाते हैं,
दुश्मन की गोली को अपने सीने से लगाते हैं,
इनके सीमा पर रहने से हम अच्छे से सो पाते हैं,
इन्हीं की वजह से हम शांती से अपने घर रह पाते हैं

सैनिक हैं भारत मां के वीर सपूत,
इनके लिए तो ना कोई धांव न धूप,
हर पश्चिमी रास्ते पर वो बंदूकें जाते हैं,
अपनी वीरता का झंडा देश में फहराते हैं,

सच्चा इश्क करना सैनिकों से सिखा,
इश्क में भारत मां पर मिटना सिखा,
रुक सैनिक हीं हमें दुश्मनों के लिए जीना सिखाते हैं,
अपने हर काम पूरा करने के लिए अपनी जान लुटाते हैं

किसी के ग़मरे की खुशबू को महकला छोड़ आभा सैनिक,
अपनी नन्ही सी चिड़ियां को महकला छोड़ आभा सैनिक,
भारत मां से कहता है सैनिक अपनी छाती से लगा ले मुझे,
अपनी मां की बांहों को तपस्ला छोड़ आभा सैनिक।

→ नाम ⇒ यानिश इकबाल

→ कक्षा ⇒ 12^{वीं} 'अ'

→ स्थान ⇒ लखनऊ



A decorative border of various flowers and leaves in blue line art surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with detailed leaves and stems.

Did You Know?

- ❖ There are almost 20000000 insects on every human being.
- ❖ An eye ball weighs about 1 ounce.
- ❖ Bamboo can grow up to 3ft in 24 hours.
- ❖ Human body has 2-3 million sweat glands.
- ❖ Shark can live up to 100 years.
- ❖ A Snail sleeps for three years.
- ❖ Star fish does not have brain.
- ❖ An Ostrich's eye is bigger than its brain.
- ❖ The colour of coca was originally green.
- ❖ The Ants pass over on the right side always when intoxicated.
- ❖ Rhythm is the longest English word without a vowel.

~Rimsha Bano

XII-B

A decorative border of various flowers and leaves in blue line art surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with detailed leaf patterns.

PRACTICE MAKES A MAN PERFECT

There is a very popular saying that “Practice makes a man perfect”. The saying is true in every aspect. Until a person practices, he/she cannot attain perfection. For when we try to ride a bicycle for the first time, we do not even know how to balance ourselves properly but with the time and lots of practicing, we learn to drive a bicycle. Similarly, we can use another example to prove our statement is, when we put in a lot of effort while studying, we can achieve our desired goals. Practicing is also important in every other aspect of our life, like cooking, driving and playing. As a human being you must never lose hope, if you do not succeed the first time, try and try again.

Every popular person has failed in his or her first attempt, be it Einstein, Vasco Da Gama or Amitabh Bachchan. But failure should be considered the first the first step towards success. If you want to be successful, like them then you should not give up hope and until you reach your destination keeping the positive attitude and practicing till perfection can make you successful person.

~Swati Singh

A decorative border of blue line-art flowers and leaves surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with various leaf shapes interspersed.

Religious Equality

A fetus starts living in a religious womb and at the end of the life, dies by religious customs. Isn't it interesting that how life bounds every one of us in a circle of some faith and belief which we practice diligently with so much of enthusiasm? But do we Indians have really got freedom to practice, propagate and profess the religion we choose or be inherited by birth. Or do we actually perceive the reality as what the projector shows on the screen.

In India according to 2011 census Hindus are 79.8% Muslims are 14.2% Christians are 2.3% Sikhs are 1.7% and the rest 2% consists of Buddhists. The fight over religious practice is not new to the society but the leaders keep the riots in motion for generations to gain greedy powers for their selfishness.

In constitution, article 25-28 provides freedom of conscience and right to profess, practice and propagate under the surveillance of public policy. i.e., one should not harm one's belief while enjoying our freedom.

~Pratyaksha Trivedi

IX-D

NEVER GIVE UP!

Never Give Up,
If you are surrounded
by difficulties,
Then find a way out of them
But never give up!



If sorrows come,
They too will pass away,
And once the wave of
happiness comes back,
But never give up!

Today that dark night
full of difficulties has come,
Will also be cut and once
again that golden morning will be
waiting for your victory.




But never give up!

By: Muskan
Class - VIII A

FLY LIKE BIRD

Hold onto dreams
For if dreams die
Life is like a
broken-winged bird
That cannot fly
Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow

NAME - ZOYA PARVEEN
CLASS - IX A
HOUSE - RAMAN





BOOK REVIEW

Name of the Book: - The Second Jungle Book

Author: - Rudyard Kipling

Published by Om Books International

The Second Jungle Book witnesses Mowgli's majestic transformation from a Man Cub to the Master of the Jungle. A must-read for all the fans of Jungle Book, the second addition brings forth a riveting collection of Mowgli's escapades in the Jungle, with his loyal friends Bagheera and Baloo. The narrative sees a grown-up Mowgli coming to terms with the realisation that it's time for him to leave behind his beloved animal friends and the Jungle. Mowgli must return to the world of man. This book promises to take the readers on an emotional roller coaster, during which they will be able to understand and sympathise with Mowgli's dilemma and demurrals.

The most important life lesson taught by the story "Jungle Book" is not to be a coward. Instead, we need to confidently face our fears and triumph over them. This is shown beautifully in the story of how bravely and confidently Mowgli faces the Tiger - Sher Khan.

- Shreya Pathak

XIA

A decorative border of various flowers and leaves in blue line art surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with detailed leaves and stems.

LONGEST ENGLISH WORD

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

It contains 45 letters and it's a lung disease that is caused by silica dust.

But, do you know that there is another word which is even longer than this word? It actually takes 3 and a half hour to say that word and that word contains 189 thousand letters. The word is the chemical name of the largest known protein TITIN. The reason why this word is so long is because all the amino acids that take to form this protein, their individual names are combined to form its name as well.

A lot of people argue that it's the longest English word but a fair share of people still refuse to accept it as the longest English word because it's a scientific name. Just due to that reason we consider pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis as the longest English word.

The easiest way to learn this word is to break this huge word into small- small words and keep repeating it into this manner again and again, this way you'll learn this word quickly.

- Smriti Mishra
CLASS - XI B

A decorative border of various flowers and leaves in blue line art surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with detailed leaves and stems.

SOME INTERESTING FACTS ABOUT HUMAN BODY

- ❖ In an adult human, 25% of their bones are in the feet.
- ❖ The gluteus mixture is the body's largest muscle.
- ❖ A human's little fingers contribute over 50% of the hand's strength.
- ❖ A human's ears and nose never stop growing.
- ❖ The longest bone in the human body is the femur. It can support 80 times the weight of a person's body that's stronger than steel.
- ❖ Messages from the human brain travel along nerves at up to 200 miles an hour(322km/h).
- ❖ If a human being's DNA were uncoiled, it would stretch 10 billion miles, from Earth to Pluto and back.
- ❖ By the time a person reaches 70 years old, he or she will have consumed over 12,000 gallons of water.

~Rimsha Bano

XII-B

A decorative border of various flowers and leaves in black line art surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with some leaves having detailed vein patterns.

Library in School

A library is an essential component of any school. It serves as a hub of knowledge, a place for students to explore various subjects, and a source of inspiration. In this article, we will delve into the importance of a library in a school setting.

First and foremost, a library exposes students to a wide range of books, magazines, and other reading materials. This exposure allows students to develop and enhance their reading skills. Reading is not only crucial for academic success but also for personal growth. Through reading, students can explore different perspectives, cultures, and ideas, expanding their knowledge and understanding of the world.

Additionally, libraries provide access to a wide variety of resources that support the curriculum taught in the classrooms. From textbooks to reference materials, students can find information on various subjects to further their learning. Libraries also offer access to online databases and digital resources that can supplement classroom instruction. This access allows students to conduct research, gather information, and engage in independent study.

Moreover, libraries serve as a peaceful and quiet space for students to study and concentrate. School libraries provide a calm and focused environment, away from the distractions of a busy classroom. This quiet space encourages students to engage in deep learning, critical thinking, and problem-solving. It fosters an atmosphere of productivity and concentration, promoting academic success.

A library is not only beneficial for students but also for teachers. Teachers can utilize the library to gather resources, plan lessons, and find teaching materials. They can also collaborate with librarians to enhance their instructional strategies and provide students with recommended readings that align with the curriculum. The library becomes a valuable partner for teachers in their quest to provide quality education to their students.

Furthermore, a library encourages a love for reading and lifelong learning. By exposing students to a wide variety of books and reading materials, a library nurtures a passion for reading, which extends beyond the school years. It instills a habit of seeking knowledge, exploring different genres, and becoming lifelong learners.

Lastly, a library serves as a social space that promotes community engagement and interaction. It becomes a gathering place where students can engage in group projects, host book clubs, or attend workshops and presentations. The library fosters social connections, collaboration, and communication among students, supporting their social and emotional development.

In conclusion, a library forms an integral part of a school. It provides students with resources, fosters a love for reading, enhances academic success, and promotes community engagement. A well-equipped and well-maintained library is crucial in creating a conducive learning environment that prepares students for future success.

Pranshu Singh
Lass XI A

Benefits Of Yoga....


- Yoga improves strength, balance and flexibility. ...
- Yoga helps with back pain relief. ...
- Yoga can ease arthritis symptoms. ...
- Yoga benefits heart health. ...
- Yoga relaxes you, to help you sleep better

Priyanshu Sharma

Class XII A



9TH INTERNATIONAL YOGA DAY





The Game that I like most

The game that I like most is cricket .The International Cricket Council (ICC) governs matches globally whereas the rules of the game are laid down in a code called Laws of Cricket. Every cricket match is played between two teams of 15 players out of which the best and fittest 11 play the match. The match equipment including bat's weight, usage of the ball, wicket dimensions, position of umpires, etc. are strictly monitored on the field.

The format has changed considerably with matches in both limited and unlimited overs. In addition to large scale tournaments like the World Cup, country-based premier leagues such as the Indian Premier League (IPL), Big Bash League (BBL) and Champions League (CLT20) have gained popularity. The major national team rivalries in cricket are seen between England and Australia, India and Pakistan, South Africa and England with nail-biting matches.

Although cricket is not the national game of India, it is definitely the most followed and played. The Men's national team has won the cricket world cup in all formats under the leadership of captains like Kapil Dev and M.S. Dhoni. The Women's national team is prospering and has reached world cup finals with players like Mithali Raj, Smriti Mandhana, Jhulan Goswami and so on. Even the under 19 and blind cricket teams of India have brought home several trophies.

By : Ritesh Singh .
Class: 11th - A .



"SORRY" Not Just A Word But More....

We see that this word is being used quite commonly these days, people don't realise that they are using this word for apologising it has just become a habit. We have lost the feelings of apology and we utter this word.

Said a bad word, no problem say "sorry" Hit someone say "sorry", can't help someone say " sorry".

It becomes an easy way out to run away from troubles caused by our mistakes. SORRY is an innocent sincere apology offered right from one's heart. It is a feeling which makes one realise of his mistakes.

It is a promise that one makes to try not to commit that mistake again.

I guess life has become too mechanical we don't realise that in a day how much people were hurt. But then, we too are humans and humans make mistakes. The only thing is that we must realise the true meaning of this word that will help our heart to be at peace.

SHIVANG TRIPATHI

Class XII A

My School Library

A library is a must for a good school. No school is complete without a library. A well-equipped library is a great asset to a school. It is equally useful for students and teacher's both. It helps to develop reading habits. It increases their knowledge. My school also has a big library. There are many book cases in it. Books are arranged subject wise in them. There are many books on every subject. A number is given to each book .All kinds of books are available in our school. Library such as books on literature, history, civics, mathematics, physics, chemistry, sports, etc. The biggest section of books in the library contains children's books. These books cover stories, adventure, jokes book etc. In addition to that, my school library offers daily based all fresh newspapers, magazines and new books. My school library is managed by an experienced administrator. Students are allowed to read books at library or borrow books.

I like my library very much.

Sadhvi Prajapati
Class XI - A



A decorative border of blue line-art flowers and leaves surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with various leaf shapes interspersed.

Classroom Experience: A Student's Perspective

Walking into my classroom on the first day of school, I couldn't help but feel a mix of excitement and nerves. The room was filled with the familiar scent of freshly sharpened pencils and the sound of my classmates chatting and catching up after a long summer break. The walls were adorned with colorful posters and inspiring quotes, instantly making me feel welcomed and motivated to learn.

The desks were arranged in neat rows, facing the front of the room where our teacher would lead our lessons. Each desk had a name tag with our individual names, making it feel like my own special space. I loved how our classroom was organized and clean, allowing for easy movement and collaboration with my peers.

One of my favorite parts of the classroom was the library corner. It was filled with shelves of books of all genres and subjects. I would often find myself escaping into different worlds and expanding my knowledge through reading. The cozy reading nook was a perfect spot to relax and enjoy a good book during free time or when we had independent reading activities.

Another aspect of our classroom that I appreciated was the interactive whiteboard at the front. Our teacher would use it to deliver lessons and display important information. It made the learning experience more engaging and interactive as we could solve math problems, participate in quizzes, and even watch educational videos together.

Technology also played a big role in our classroom. Each of us had access to a laptop or tablet, which we used for research, creating presentations, and collaborating with our classmates. The use of technology made learning more interesting and allowed us to explore new ways of presenting our ideas and understanding concepts.

By Shikhar Yadav
Class 11-A
Roll No. 26

Morning Assembly at Kendriya Vidyalaya Manauri, Prayagraj

We all have beautiful memories of our school days, and the morning assembly is the best part of our school days. It is a good way to start our day with a beautiful prayer which gives us peace of mind before starting our day.

Our parents and grandparents have taught us always to start our days with a morning prayer, and the same things are followed in our schools. I have a lot of good memories attached to my school days, and the best memories are created during the morning assembly.

It is the time when all the students, teachers, and supporting staff rush to the playground and gather for the Morning Prayer. Every class gets a chance to organise the morning assembly for a week. Each week has a different value as the topic, and every item of the assembly would be based on that particular topic. It was the one thing that did not change in all our years as school students.

NAME : PRINCE SAHU

CLASS : 11 - A

Demonetisation and its Impact on the Indian Economy

On November 8, 2016, the Indian government announced a historic decision that sent shockwaves through the nation: demonetisation. It involved the immediate withdrawal of all **Rs.500** and **Rs. 1,000** banknotes of the Mahatma Gandhi Series from circulation. The move aimed to curb corruption, black money, counterfeit currency, and promote a cashless economy. In this article, we delve into the impact of demonetization on the Indian economy, its short-term consequences, and the long-term implications.

Short-Term Impact

1. **Cash Crunch and Economic Slowdown:** The sudden withdrawal of 86% of the total currency in circulation led to a severe cash shortage in the economy. Small businesses, daily wage laborers, and the informal sector, which largely relied on cash transactions, were hit hard. The scarcity of cash led to reduced consumer spending and dampened overall economic activity, causing a short-term slowdown.

2. **Disruption in Supply Chains:** Businesses faced challenges in managing their cash flows and inventory, leading to disruptions in supply chains. Many companies experienced a dip in production and faced difficulty in paying salaries and meeting expenses.

Long-Term Implications

1. **Formalisation of the Economy:** One of the key objectives of demonetisation was to formalise the Indian economy by bringing more transactions into the formal banking system. As a result, there was an increase in digital payments, leading to better transparency and accountability.

2. **Tax Compliance:** Demonetization encouraged people to declare their undisclosed income and pay taxes. This led to an expansion of the tax base, which, in the long run, could positively impact government revenues.

Conclusion

Demonetisation was a bold move with both short-term challenges and potential long-term benefits for the Indian economy. While the short-term disruptions were evident, the long-term impact on tax compliance, digital payments, and the formalisation of the economy has the potential to shape India's economic landscape positively. Nevertheless, the success of demonetization should also be evaluated alongside other policy measures and reforms taken by the government to ensure sustained economic growth and inclusive development.

NAME - SURYA SHARMA

CLASS - 11 - A

A decorative border of various flowers and leaves in blue line art surrounds the page. The flowers include roses, daisies, and tulips, with detailed leaves and stems.

TIPS TO FACE EXAMINATION

- Exam are critical periods of a student's life.
- To prepare for exam, First of all you have to concentrated on your studies.
- Try to complete the entire syllabus before the exams.
- Prepare smart studying rather than study whole day and night.
- Divide your all chapters which are coming in your exam to plan this chapter is to be done on this day.
- Revise all the chapter at least twice for remember.
- Take sufficient sleep during the preparation to boost your memory.
- Studying in morning will make you understand thinks quickly.
- Take 15-30 minutes of rest between the continuous study routine.
- It is necessary to stay motivated while preparing for the exam.

Vinay Kumar Rai

CLASS XII-A

A decorative border of various flowers and leaves in black and white line art surrounds the text. The flowers include roses, daisies, and tulips, with some leaves having small circular details.

SHARE MARKET

The share market is also known as the stock market or equity market, is a crucial component of the country's financial system. It facilitates the buying and selling of company shares, representing ownership in public-listed companies. The primary stock exchanges in India are the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE). Investors can participate in the market by purchasing shares through brokers or online trading platforms. The share market plays a significant role in capital formation, providing companies with the necessary funds for growth, and offers individuals opportunities to invest and potentially earn returns based on the performance of the companies they invest in. It is important to note that investing in the share market carries risks, and investors should conduct thorough research and seek professional advice before making investment decisions.

Md. Faraz

Class :-10 'B'



SOLDIERS

**You know how hard it is to be a soldier
It means you have to sacrifice
You have to sacrifice the happy times with your family
Left your friends being at duty
You know that how hard it will be but still sacrificing for the nation
You control all over your emotions
Emotions for your child, emotions for your wife,
Emotions for your parents, emotions for the one you love
You can't show your feelings just because
You are the one who gave them strength to bear every situation
All you have to do is
Being ready to sacrifice
All the time you just wait to go your home
Cause you don't know when will you meet them
How long it will take
And when the time pass and your holidays are over
You left your wife your children your parents
And that time you saw the tears all rolling down from everyone eyes
But you can't cry cause you are the strength for them
You can't show your sadness and just leave
And wait for the next time
And daily you have to do is nothing except praying
To pass all the days quickly
And in the end you will meet your family**

**Abhyam Singh
Class 12 - A**



ABUNDANCE

There was a time when there was scarcity of food and water but that has been resolved to some extent for now. Talking about scarcity, this brings us to the elephant in the room for this essay which is 'abundance'

What do you think is more intimidating? When you lack resources or when you have plenty of them?

Well, this is a topic of discussion, we'll get on it latter, but as far as I know the latter is more frightening than the former.

When I write an essay and I become very dubious as to which word will truly represent the thought going in my head and I find this very intricating for real.

The reason being? "Abundance" the abundance of the these words lead me to a dead end sometimes. I am not saying this in a self grandiose narcissistic way, but to showcase that options are the path to different branches of a tree which will eventually land you on the same ground. The process tires me. I can never do away with this completely.

Should I check my WhatsApp or Instagram? Should I sleep or watch Netflix?

Should I write an essay or go out with my friends?

There is always a wrestling going in my head, which one to choose and which one to say no to.

The solution?

Imagine yourself playing football and you have the ball at your feet, you can pass the ball to the rest of the ten players of your team, what to do? which one to give?

You should always give the ball to the one who makes it a little easier for you to score a goal.

Actually if you see it clearly, there is no such thing as abundance.

There is always one option, we just don't have the aptitude to spot it.

SUMIT CHAUDHARY
CLASS XII B

DEMONETISATION-

Demonetization refers to the act of stripping a currency as legal tender. In demonetization, the current form of money is removed from circulation and retired. Furthermore, the replacement of this form of money occurs with new notes or coins. Sometimes, a nation completely introduces a new currency in place of old currency. Most noteworthy, demonetization is a move in which a government bans the notes or coins of a certain denomination.

Effects of Demonetisation-

Demonetisation has long term effects on a nation's economy. The people in the rural areas who did not have access to internet and plastic money were majorly affected. Since centuries, governments have been using it as a tool to reduce corruption and other illegal activities. Thus, Demonetisation boosts a nation's economy by removing fake currencies and bringing black money into the mainstream.

Positive Effect of Demonetisation on eEconomy-

Break Down of Black Money: – Black money accumulation impacts a country's economy negatively

The decline in Fake Currency Notes:- A number of fake currency notes circulating in the country have a bad impact on its economy.

Increase in Bank Deposits:- The circulation of the old currency notes is banned and those who have these currency notes should deposit them in the banks so that their money did not get wasted.

Real Estate:- Real Estate is one industry that runs largely on black money

Negative Impact of Demonetisation on Indian Economy-

Most of the positive impacts of demonetization are long term. We may begin to see the country's economic growth after demonetization in a few years from now. However, the negative impact of demonetization on the Indian economy has been tremendous.

Many of cash-driven small industries are left starving. Many manufacturing industries suffered huge losses thereby impacting the economy of the country negatively.